

श्री राकेश सिंघा, माननीय विधायक(ठियोग) द्वारा नियम-324 के तहत उठाया गया मामला

मामले का उद्धरण

“ मैं सरकार का ध्यान विकट्री टनल के समीप लक्कड़ बाजार की ओर जा रहे कार्ट रोड पर लग रही रिटेनिंग वॉल के कारण उत्पन्न खतरे की ओर दिलाना चाहता हूँ:-

वर्तमान में उक्त वर्णित स्थान पर लगाई गई/लगाई जा रही रिटेनिंग वॉल पर रेलिंग नहीं लगाई गई है जिसके कारण बाबा मार्केट से कोमली बैंक जाने वाले राहगीरों की वहाँ से गुजरते वक्त गिरने/फिसलने की संभावना बहुत बढ़ चुकी है। वहाँ पर रिटेनिंग वॉल लगने के कारण पैदल चलने के लिए पगडंडी बहुत संकरी रह गई है और साथ ही वह एरिया काफी स्लिपरी भी है जिसके कारण बच्चों व बुजुर्गों को वहाँ आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि उपरोक्त रिटेनिंग वॉल के टॉप से शीघ्रतिशीघ्र रेलिंग लगाई जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी होने से बचा जा सके।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय ,

शिमला शहर की सड़कों को चौड़ा करने का कार्य शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। विकट्री टनल के समीप लक्कड़ बाजार की ओर जा रहे कार्ट रोड पर लग रही रिटेनिंग वाल का प्रशासनिक अनुमोदन शिमला स्मार्ट सिटी के पत्र दिनांक 12.01.2022 द्वारा प्रदान की गई। इस कार्य के लिए मु0 1.81 करोड़ रुपये की व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्य मॉटू कुमार गुप्ता ठेकेदार को अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल-I द्वारा पत्र संख्या 25832-40 दिनांक 28.02.2022 को आबंटित किया गया है | इस कार्य के अंतर्गत 145 मीटर रिटेनिंग वाल, पैदल चलने योग्य पथ एवं रेलिंग का प्रावधान है। अभी केवल 15 मीटर रिटेनिंग वाल का कार्य किया गया है एवं कार्य प्रगति पर है | किसी भी दुर्घटना के बचाव हेतु अस्थाई बैरिकेडिंग का आदेश भी किया गया है एवं रिटेनिंग वाल का कार्य खत्म होने पर स्थाई रेलिंग भी लगा दी जायेगी |